

कैलिफोर्निया के 2020 के आम चुनाव में कैसे वोट करें

तैयार हो जाँ

यदि आप मतदान के लिए पहले से पंजीकृत हैं और आपके द्वारा दी गई सभी जानकारी सही है तो इसे सुनिश्चित करने के लिए आपको voterstatus.sos.ca.gov पर जाना चाहिए। अपने पते, ईमेल एड्रेस की जाँच करें और इंगित करें, यदि आप अनूदित मतदान सामग्री को प्राप्त करना चाहते हैं।

यदि आप पंजीकृत नहीं हैं तो registertovote.ca.gov पर जाकर ऑनलाइन पंजीकृत कर सकते हैं या डीएमवी, डाकघर, पुस्तकालय अथवा अपने काउंटी चुनाव कार्यालय जाकर एक प्रपत्र प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप समय-सीमा को पार कर जाते हैं तो भी मतदान तक या मतदान के दिन भी पंजीकृत कर सकते हैं।

घर से मतदान

यदि आप 19 अक्टूबर तक पंजीकृत हैं तो आपको आपके मतपत्र डाक से प्राप्त होंगे। अपने मतपत्र को भरें और हस्ताक्षर करें, तारीख भरें और इसे चिपकाना सुनिश्चित करें।

आप इसे **मेल द्वारा** वापस कर सकते हैं। किसी डाक टिकट की आवश्यकता नहीं! सुनिश्चित करें कि इसपर 3 नवंबर के दिन की समाप्ति के पूर्व का डाक-घर का मुहर लगा हो।



आप इसे अपने काउंटी चुनाव कार्यालय या किसी मतदान स्थान या मतदान केन्द्र पर छोड़ सकते हैं। अधिकांश काउंटियों के पास सुरक्षित ड्रॉप बक्सों भी हैं जो अक्टूबर के शुरुआत में उपलब्ध होंगे।

व्यक्तिगत रूप से मतदान

मतदान-दिवस **मंगलवार, 3 नवंबर, 2020** है। मतदान **सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक** जारी रहेगा। आप अपने मतदान स्थान को यहाँ: sos.ca.gov/elections/polling-place खोज सकते हैं।

अधिकांश काउंटीयाँ **शनिवार, 31 अक्टूबर, 2020 से व्यक्तिगत रूप से मतदान का भी विकल्प प्रदान करेंगी** और कुछ में उससे भी पहले व्यक्तिगत रूप से मतदान होगा। अपने स्थानीय चुनाव कार्यालय से जाँच करें। आप पूर्व मतदान स्थान और ड्रॉप बक्सों की खोज यहाँ: caearlyvoting.sos.ca.gov पर कर सकते हैं।



प्रक्रिया को यथासंभव आसान बनाने के लिए, यदि आपने डाक से मतपत्र प्राप्त किया है तो अपने मतपत्र को अपने साथ लाने का प्रयास